



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2651]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

No. 2651]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3337(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

### प्रारूप अधिसूचना

कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क वर्ष 1977 में इसकी अद्वितीय पारिस्थितिक प्रणाली के संरक्षण हेतु बनाया गया था, वहां उद्घाले हुए पेड़-पौधों के बहते हुए आकार, कार्बनिक गलके और गृदा कण के साथ बायोमास के जमा होने से (जिसे स्थानीय लोक फुंदी कहते हैं) बहुत उच्च जीवजन्तु और वनस्पतीय विविधता का मुख्य पर्यावास बनता है और विश्व में प्लावी राष्ट्रीय पार्क के रूप में विख्यात है;

कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क विभिन्न प्रकार में जलीय और पक्षी-जीवजन्तु प्रजातियों के अतिरिक्त अत्यधिक संकटापन्न और स्थानीय मणिपुर ब्रो-एन्टलर्ड मृग (Rucervuseldillieldii), जिसे स्थानीय लोक सनगाम कहते हैं और अन्य मेरुदण्डी सहचारी, अर्थात् होंग मृग, भारतीय कस्तूरा, सामान्य ऊदविलाव, छोटा भारतीय कस्तूरा, जंगली सुअर इत्यादि के लिए अंतिम प्राकृतिक शरणस्थल हैं;

और, कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर राज्य में कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 0.64 से 8.43 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 0.64 से 8.43 किलोमीटर परिवर्ती क्षेत्र विस्तारित है पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 176.0 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व (उपावंध | मानचित्र के बिन्दु सं. 13) की ओर  $24^{\circ} 31'10.266''$  उत्तर अक्षांश  $95^{\circ} 56'28.568''$  पूर्व देशान्तर; पश्चिम (उपावंध | मानचित्र के बिन्दु सं. 1) की ओर  $24^{\circ} 30'4.244''$  उत्तर अक्षांश तथा  $93^{\circ} 46'37.812''$  पूर्व देशान्तर; उत्तर (उपावंध | मानचित्र के बिन्दु सं. 11) की ओर  $24^{\circ} 33'22.486''$  उत्तर अक्षांश और  $93^{\circ} 53'54.961''$  पूर्व देशान्तर और दक्षिण (उपावंध | मानचित्र के बिन्दु सं. 22) की ओर  $24^{\circ} 22'20.930''$  उत्तर अक्षांश तथा  $93^{\circ} 52'11.593''$  पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उपावंध | के रूप में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का समन्वयन उनके अक्षांश और देशान्तर सहित उपावंध || के रूप में उपावद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों की सूची प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक के साथ-साथ अनुबंध III के रूप में उपावद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा संबंधित केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरणीय और पारिस्थिकीय विचारों को समाकलित किया गया है।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्वधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं 0 26, 30, 32 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर जैसे तम्बु, लकड़ी के आवास ;
- (iii) वर्षा जल संचय; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

**(2) प्राकृतिक स्रोतों --** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

**(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।**

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, मणिपुर सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

**(4) नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपर्युक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

**(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

**(6) ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भृष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय अनुमेय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का

		435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	होटल और रिसोर्ट स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे।
(5)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रज्जु मार्ग गर्म वायु गुवारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्तर्वा और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	भू-उपयोग की पैटर्न में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	तेल, प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन के परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाइन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(13)	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार के नए सन्निर्माण की अनुज्ञात नहीं होंगे। प्रदूषण न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों की दशा में विनियमित होगी और न्यूनतम रखा जाएगा।

**विनियमित क्रियाकलाप**

14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
16.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाधात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु (ध्वनि सहित) और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्भाव के पुनर्वर्तन को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
27.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध न किया जाए।
30.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग हेतु पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर तवू, लकड़ी के आवास इत्यादि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

**संवर्धित क्रियाकलाप**

31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
36.	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

**5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) अरण्यपाल/ उप अरण्यपाल (वन्यजीव) पार्क और अभयारण्य, मणिपुर सरकार- अध्यक्ष;
- (ख) क्षेत्री का वरिष्ठ नगर योजनाकारा,- सदस्य;
- (ग) वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंफाल- सदस्य;
- (घ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा सदस्य;

**नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि-**

- (ङ) मणिपुर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक सदस्य; वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ-
- (च) प्रभागीय वन अधिकारी (एन.पी.)- सदस्य-सचिव।

**निर्देश निबंधन -**

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्रों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्डारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।


7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/18/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - ।

कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर, के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध - II

कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के बाहरी सीमा के प्रमुख बिन्दुओं को दर्शित करने वाले समन्वयन।

स्थिति/मानचित्र का आई डी	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणियां
1	24° 30' 4.244" उ	93° 46' 37.812" पू	मोइरंग शहर
2	24° 30' 25.579" उ	93° 47' 1.855" पू	मोइरंग-सेनदरा रोड
3	24° 30' 50.269" उ	93° 47' 31.600" पू	सेनदरा गांव
4	24° 31' 33.991" उ	93° 48' 8.104" पू	इथिंग गांव
5	24° 31' 15.810" उ	93° 48' 37.657" पू	थांगा भाग -I
6	24° 32' 10.061" उ	93° 49' 17.058" पू	थांगा भाग -II
7	24° 32' 17.207" उ	93° 50' 0.874" पू	थांगा पहाड़ी के उत्तर-पश्चिमी कोने
8	24° 32' 58.103" उ	93° 51' 29.022" पू	फाबैकचौ खोंग लेइराक
9	24° 32' 42.727" उ	93° 52' 13.611" पू	फाबैकचौ खोंग लेइराक और इनफाल्लेइराक के पार
10	24° 33' 15.134" उ	93° 52' 38.418" पू	फाबैकचौ और सेकमैजिन, इमफाल नदी के किनारे के मध्य
11	24° 33' 22.486" उ	93° 53' 54.961" पू	सेकमैजिन पुल
12	24° 31' 50.673" उ	93° 54' 56.965" पू	सेकमैजिन वाबागई रोड
13	24° 31' 10.266" उ	93° 56' 28.568" पू	वाबागई लमखाई
14	24° 28' 14.621" उ	93° 56' 10.775" पू	वाबागई-सुगनु रोड पर लैंगमेइडोंग गांव
15	24° 25' 54.075" उ	93° 55' 54.097" पू	वाबागई-सुगनु रोड पर थोंगझाँव गांव
16	24° 24' 47.059" उ	93° 55' 43.982" पू	वाबागई-सुगनु रोड का बिन्दु
17	24° 24' 31.749" उ	93° 55' 19.775" पू	वाबागई-सुगनु रोड का बिन्दु
18	24° 24' 4.392" उ	93° 54' 54.142" पू	वाबागई-सुगनु रोड और कक्षिंग लमखाई के बिंदु के पार
19	24° 24' 5.409" उ	93° 54' 17.454" पू	कक्षिंग खुनाव गांव
20	24° 24' 21.677" उ	93° 53' 30.356" पू	कक्षिंग लमखाई रोड और मरामबमारिल/नदी के पार
21	24° 24' 12.539" उ	93° 52' 51.109" पू	मरामबमारिल/नदी बिन्दु के पास
22	24° 22' 20.930" उ	93° 52' 11.593" पू	शबल गांव (वानगु रोड को पार करके मरामबा नदी के साथ)
23	24° 23' 11.790" उ	93° 50' 46.659" पू	इनफाल नदी पर बानगो पुल के ऊपर
24	24° 25' 20.640" उ	93° 50' 22.898" पू	इथाई बाँध
25	24° 25' 41.307" उ	93° 50' 17.800" पू	इमफाल नदी और खुगा नदी का मिलन स्थल
26	24° 25' 50.718" उ	93° 49' 24.321" पू	खुगा नदी के पश्चिमी तट
27	24° 25' 51.227" उ	93° 48' 33.723" पू	खुगा नदी पर कुम्बी ब्रिज
28	24° 26' 8.669" उ	93° 48' 7.349" पू	कुम्बी -मोइरंग रोड पर सीतापुर गांव
29	24° 26' 48.356" उ	93° 47' 38.443" पू	कुम्बी -मोइरंग रोड पर थांगालावाइ गांव
30	24° 28' 11.258" उ	93° 47' 3.392" पू	मोइरंग खौनाव गांव (मोइरंग रोड के इवुल रोड के साथ मिलता है)
31	24° 29' 6.964" उ	93° 46' 47.309" पू	कुम्बी -मोइरंग रोड

## उपावंध – III

कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर के पारिस्थितिकीय संवेदी जौन के भीतर आने वाले गांवों की सूची

क्र. सं.	नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अनाल	24° 24' 3.191" उ	93° 52' 53.468" पू
2	आरौंग	24° 27' 31.860" उ	93° 51' 40.332" पू
3	चन्दापुर	24° 28' 46.652" उ	93° 48' 1.381" पू
4	छिंगजाओ	24° 26' 26.273" उ	93° 53' 12.127" पू
5	छिंगमाई	24° 28' 12.543" उ	93° 49' 2.346" पू
6	एलांगखांगपोकपी	24° 26' 27.855" उ	93° 56' 7.111" पू
7	हियांगलाम	24° 29' 48.102" उ	93° 55' 20.768" पू
8	इथाईखुनाओ	24° 26' 0.881" उ	93° 50' 0.454" पू
9	इथिंग	24° 31' 14.524" उ	93° 48' 38.720" पू
10	काइरेनफाबी	24° 27' 35.305" उ	93° 47' 42.733" पू
11	केइबुल	24° 28' 55.315" उ	93° 48' 56.200" पू
12	खोरदराक	24° 28' 59.299" उ	93° 51' 44.113" पू
13	कोमलाखोंग	24° 31' 44.965" उ	93° 52' 20.547" पू
14	कोनुमा	24° 30' 41.399" उ	93° 52' 26.342" पू
15	कुम्बी	24° 25' 59.430" उ	93° 48' 47.637" पू
16	लमजाओ	24° 29' 47.436" उ	93° 56' 36.079" पू
17	लंगमेइडांग	24° 28' 10.480" उ	93° 56' 26.443" पू
18	लफुपट	24° 30' 17.358" उ	93° 52' 51.157" पू
19	मेरिंग	24° 24' 34.698" उ	93° 52' 56.985" पू
20	मोइरंग	24° 29' 58.076" उ	93° 46' 57.199" पू
21	मुंशोइ	24° 25' 25.825" उ	93° 52' 8.273" पू
22	नोंगमेइखोंग	24° 26' 52.871" उ	93° 51' 28.098" पू
23	फोबैकचाओ	24° 32' 39.600" उ	93° 52' 22.928" पू
24	पुरुमतामपक खुनाओ	24° 26' 34.792" उ	93° 57' 6.710" पू
25	सगराम	24° 29' 41.859" उ	93° 49' 35.959" पू
26	सेकमैजिन खुनाओ	24° 33' 17.134" उ	93° 54' 7.198" पू
27	सेकमैजिन थोंगाम	24° 33' 19.014" उ	93° 53' 38.093" पू
28	सेन्दरा	24° 30' 50.138" उ	93° 47' 56.967" पू
29	सेतापुर	24° 26' 7.273" उ	93° 48' 14.819" पू
30	शन्थापुर	24° 29' 21.830" उ	93° 49' 16.504" पू
31	शारिक	24° 24' 48.762" उ	93° 52' 34.843" पू
32	तेरा	24° 28' 20.063" उ	93° 52' 9.850" पू
33	तेरा खुनाओ	24° 28' 20.063" उ	93° 52' 9.850" पू
34	थन्ना	24° 31' 56.296" उ	93° 50' 19.999" पू
35	थन्नालवाई	24° 27' 0.847" उ	93° 47' 36.583" पू
36	थोंगजाओ	24° 25' 51.730" उ	93° 55' 56.916" पू

37	थौनाओजाम	24° 27' 15.169" उ	93° 56' 20.638" पू
38	तोकपाचिंग	24° 25' 45.354" उ	93° 53' 16.016" पू
39	वाबागई	24° 31' 28.283" उ	93° 56' 14.695" पू
40	वाइखोंग	24° 25' 1.806" उ	93° 56' 3.548" पू
41	वान्यु	24° 23' 27.986" उ	93° 50' 54.325" पू
42	वान्गुलइखा	24° 25' 8.151" उ	93° 50' 50.828" पू
43	वान्युतेरा	24° 24' 56.752" उ	93° 49' 6.072" पू
44	वान्युसबाल	24° 23' 55.540" उ	93° 49' 8.184" पू
45	यांगडोंग	24° 27' 2.429" उ	93° 55' 59.521" पू

**उपाबंध IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्वाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2015

**S.O. 3337(E).**— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

### Draft Notification

WHEREAS, the Keibul Lamjao National Park was formed in 1977 for conservation of its unique ecosystem where the floating mass of entangled vegetation, formed by the accumulation of organic debris and biomass with soil particles (locally known as Phumdi) provides for major habitat of a very high faunal and floral diversity and is well known as the floating National Park in the World;

AND WHEREAS, the Keibul Lamjao National Park is the last natural refuge for critically endangered and endemic Manipur Brow-antlered deer (*Rucervus eldi*), locally known as Sangai and other associate vertebrates namely Hog Deer, Large Indian Civet, Common Otter, Small Indian Civet, Wild Boar etc, besides a variety of aquatic and avi-faunal species;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Keibul Lamjao Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.64 to 8.43 kilometre from the boundary of the Keibul Lamjao National Park in the State of Manipur as the Keibul Lamjao National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is varies from 0.64kilometres to 8.43kilometres from the boundary of the Keibul Lamjao National Park. The area of Eco-sensitive Zone is 176.0square kilometre.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 24°31'10.266"N latitude and 93°56'28.568"E longitude towards east (point No.13 of Annexure I map); 24°30'4.244"N latitude and 93°46'37.812"E longitude towards west (point No.1 of Annexure I map); 24°33'22.486"N latitude and 93°53'54.961"E longitude towards north (point No.11 of Annexure I map) and 24°22'20.930"N latitude and 93°52'11.593"E longitude towards south (point No.22 of Annexure I map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(5) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- i. Environment;
- ii. Forest;
- iii. Urban Development;
- iv. Tourism;
- v. Municipal;
- vi. Revenue;
- vii. Agriculture; and
- viii. Manipur State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 26, 30, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Manipur in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Manipur.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of

Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under.-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2000as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable mannerat site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**-The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Activity</b>	<b>Remarks</b>
(1)	(2)	(3)
<b>A.Prohibited Activities:</b>		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.  (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Drastic change of land use pattern.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Underground pipelines for transport of oil, natural gases, bio-fuel.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Construction activities.	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. Construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum.

<b>B. Regulated Activities:</b>		
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.  (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.  (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.  (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Drastic change of agriculture system	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
20.	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Air (including noise) and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

26.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws
28.	Security Forces Camp	Regulated under applicable laws
29.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
30.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities	Regulated under applicable laws

**C. Permitted Activities:**

31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws
36.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) The Conservator of Forests / Deputy Conservator of Forests(Wild Life) Park and Sanctuary, Government of Manipur - Chairman;
- (b) Senior Town Planner of the area - Member;
- (c) Senior Environment Engineer, Manipur State Pollution Control Board, Imphal - Member;
- (d) A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Manipur for a term of one year – Member;
- (e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Manipur for a term of one year in each case - Member;

(f) Divisional Forest Officer (NP)

- Member Secretary.

**Terms of Reference:**


- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator of Forests/Park and Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/18/2015-ESZ/RE]

Dr. T.CHANDINI, Scientist 'G'

**Annexure I****Map of Eco-sensitive Zone boundary of Keibul Lamjao National Park, Manipur.**

(63)



**Annexure II**

**The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Keibul Lamjao National Park, Manipur.**

<b>Location /ID on the map</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>	<b>Remarks</b>
1	24° 30' 4.244" N	93° 46' 37.812" E	Moirang town
2	24° 30' 25.579" N	93° 47' 1.855" E	Moirang-Sendra road
3	24° 30' 50.269" N	93° 47' 31.600" E	Sendra village
4	24° 31' 33.991" N	93° 48' 8.104" E	Ithing village
5	24° 31' 15.810" N	93° 48' 37.657" E	Thanga Part-I
6	24° 32' 10.061" N	93° 49' 17.058" E	Thanga Part-II
7	24° 32' 17.207" N	93° 50' 0.874" E	North-Western corner of Thanga hill
8	24° 32' 58.103" N	93° 51' 29.022" E	Phabakchaokhongleirak
9	24° 32' 42.727" N	93° 52' 13.611" E	Crossing of Phabakchaokhongleirak & Imphalleirak
10	24° 33' 15.134" N	93° 52' 38.418" E	Imphal river bank between Phabakchao&Sekmaiin
11	24° 33' 22.486" N	93° 53' 54.961" E	Sekmaiin bridge
12	24° 31' 50.673" N	93° 54' 56.965" E	SekmaiinWabagai road
13	24° 31' 10.266" N	93° 56' 28.568" E	WabagaiLamkhai
14	24° 28' 14.621" N	93° 56' 10.775" E	Langmeidong village on Wabagai-Sugnu Road
15	24° 25' 54.075" N	93° 55' 54.097" E	Thongjao village on Wabagai-Sugnu Road
16	24° 24' 47.059" N	93° 55' 43.982" E	Point on Wabagai-Sugnu Road
17	24° 24' 31.749" N	93° 55' 19.775" E	Point on Wabagai-Sugnu Road
18	24° 24' 4.392" N	93° 54' 54.142" E	Crossing point of Wabagai-Sugnu Rd & KakchingLamkhai road
19	24° 24' 5.409" N	93° 54' 17.454" E	Kakchingkhunou village
20	24° 24' 21.677" N	93° 53' 30.356" E	Crossing point of Kakching Lamkhai road & MarambaMaril/ River
21	24° 24' 12.539" N	93° 52' 51.109" E	Point on MarambaMaril/ River
22	24° 22' 20.930" N	93° 52' 11.593" E	Shabal village (Maramba River crosses with Wangu Road)
23	24° 23' 11.790" N	93° 50' 46.659" E	Wango Bridge on Imphal River
24	24° 25' 20.640" N	93° 50' 22.898" E	Ithai barrage
25	24° 25' 41.307" N	93° 50' 17.800" E	Meeting point of Imphal River and Khuga River
26	24° 25' 50.718" N	93° 49' 24.321" E	Western bank of Khuga River
27	24° 25' 51.227" N	93° 48' 33.723" E	Kumbi Bridge on Khuga River

28	24° 26' 8.669" N	93° 48' 7.349" E	Sitapur village on Kumbi-Moirang Road
29	24° 26' 48.356" N	93° 47' 38.443" E	Thangalawai village on Kumbi-Moirang Road
30	24° 28' 11.258" N	93° 47' 3.392" E	Moirangkhunou village(Moirang Rd meets with Keibul Road)
31	24° 29' 6.964" N	93° 46' 47.309" E	Kumbi-Moirang Road

**Annexure III****List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Keibul Lamjao National Park, Manipur.**

SL. NO	NAME	LATITUDE	LONGITUDE
1	Anal	24° 24' 3.191" N	93° 52' 53.468" E
2	Arong	24° 27' 31.860" N	93° 51' 40.332" E
3	Chandapur	24° 28' 46.652" N	93° 48' 1.381" E
4	Chingjao	24° 26' 26.273" N	93° 53' 12.127" E
5	Chingmaei	24° 28' 12.543" N	93° 49' 2.346" E
6	Elangkhangpokpi	24° 26' 27.855" N	93° 56' 7.111" E
7	Hiyanglam	24° 29' 48.102" N	93° 55' 20.768" E
8	Ithaikhunou	24° 26' 0.881" N	93° 50' 0.454" E
9	Ithing	24° 31' 14.524" N	93° 48' 38.720" E
10	Kairenphabi	24° 27' 35.305" N	93° 47' 42.733" E
11	Keibul	24° 28' 55.315" N	93° 48' 56.200" E
12	Khordrak	24° 28' 59.299" N	93° 51' 44.113" E
13	Komlakhong	24° 31' 44.965" N	93° 52' 20.547" E
14	Konuma	24° 30' 41.399" N	93° 52' 26.342" E
15	Kumbi	24° 25' 59.430" N	93° 48' 47.637" E
16	Lamjao	24° 29' 47.436" N	93° 56' 36.079" E
17	Langmeidong	24° 28' 10.480" N	93° 56' 26.443" E
18	Laphupat	24° 30' 17.358" N	93° 52' 51.157" E
19	Maring	24° 24' 34.698" N	93° 52' 56.985" E
20	MOIRANG	24° 29' 58.076" N	93° 46' 57.199" E
21	Munshoi	24° 25' 25.825" N	93° 52' 8.273" E
22	Nongmaikhong	24° 26' 52.871" N	93° 51' 28.098" E
23	Phoubakchao	24° 32' 39.600" N	93° 52' 22.928" E
24	PurumtampakKhunou	24° 26' 34.792" N	93° 57' 6.710" E
25	Sagram	24° 29' 41.859" N	93° 49' 35.959" E
26	SekmaijinKhunou	24° 33' 17.134" N	93° 54' 7.198" E
27	SekmaijinThongam	24° 33' 19.014" N	93° 53' 38.093" E
28	Sendra	24° 30' 50.138" N	93° 47' 56.967" E

29	Setapur	24° 26' 7.273" N	93° 48' 14.819" E
30	Shanthapur	24° 29' 21.830" N	93° 49' 16.504" E
31	Sharik	24° 24' 48.762" N	93° 52' 34.843" E
32	Tera	24° 28' 20.063" N	93° 52' 9.850" E
33	Terakhunou	24° 28' 20.063" N	93° 52' 9.850" E
34	Thanga	24° 31' 56.296" N	93° 50' 19.999" E
35	Thangalawai	24° 27' 0.847" N	93° 47' 36.583" E
36	Thongjao	24° 25' 51.730" N	93° 55' 56.916" E
37	Thounaojam	24° 27' 15.169" N	93° 56' 20.638" E
38	Tokpaching	24° 25' 45.354" N	93° 53' 16.016" E
39	Wabagai	24° 31' 28.283" N	93° 56' 14.695" E
40	Waikhong	24° 25' 1.806" N	93° 56' 3.548" E
41	Wangoo	24° 23' 27.986" N	93° 50' 54.325" E
42	WangooLaikha	24° 25' 8.151" N	93° 50' 50.828" E
43	Wangootera	24° 24' 56.752" N	93° 49' 6.072" E
44	Wangusabal	24° 23' 55.540" N	93° 49' 8.184" E
45	Yangdong	24° 27' 2.429" N	93° 55' 59.521" E

**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.  
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.